



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 66]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 9, 2015/पौष 19, 1936

No. 66]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 9, 2015/PAUSHA 19, 1936

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2014

का.आ. 123 (अ).—जबकि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2013 की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 6 नवंबर, 2013 को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का पुनर्गठन किया गया;

जबकि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उप-धारा (1) (ख) के उपबंध के अनुपालन में, भारत के राजपत्र में दिनांक 05.11.2013 को प्रकाशित अधिसूचना द्वारा डॉ. एनटीआर स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश के प्रतिनिधित्व के लिए निम्नलिखित चिकित्सकों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के सदस्यों के रूप में निर्वाचित किया गया था:

क्रम सं.	विश्वविद्यालय का नाम	निर्वाचित सदस्य का ब्यौरा
1.	डॉ. एनटीआर स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश	<p>(i) डॉ. वेंकटेश काकोलू, प्रोफेसर ऑफ सर्जरी और प्रभारी, एडीएमई गांधी मेडिकल कॉलेज, सिकन्दराबाद।</p> <p>(ii) डॉ. के. रमेश रेड्डी, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, बालरोग सर्जरी, नीलोफर अस्पताल, उस्मानिया मेडिकल कॉलेज, हैदराबाद।</p>

जबकि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने सूचित किया है कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के लागू होने के बाद, जिसके द्वारा अब डॉ. एनटीआर स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 (तेलंगाना अंगीकरण आदेश), 2014 के तहत नवगठित राज्य में स्थित विभिन्न चिकित्सा एवं दंत-चिकित्सा महाविद्यालयों को संबद्ध करने के उद्देश्य से तेलंगाना राज्य ने उस राज्य के लिए अपना स्वास्थ्य विश्वविद्यालय - कालोजी नारायण राव स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की है। तेलंगाना राज्य के लिए स्वास्थ्य विश्वविद्यालय की स्थापना के पश्चात् जो चिकित्सा महाविद्यालय पहले डॉ. एनटीआर स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश से संबद्ध थे और अब तेलंगाना प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, उन्हें कालोजी नारायण राव स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्ध किया गया है।

और जबकि आईएमसी अधिनियम, 1956 की धारा 7 की उप-धारा 3 में उल्लिखित है कि "यदि कोई निर्वाचित या नामित सदस्य परिषद को पर्याप्त स्पष्टीकरण दिए बिना परिषद की साधारण बैठकों में लगातार तीन बार अनुपस्थित रहे, अथवा धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के तहत निर्वाचित सदस्य के मामले में, यदि वह अब संबंधित विश्वविद्यालय के संकाय का सदस्य नहीं है, अथवा उस उप-धारा के खंड (ग) या खंड (घ) के तहत निर्वाचित सदस्य के मामले में, यदि वह अब संबंधित राज्य के मेडिकल रजिस्टर में पंजीकृत व्यक्ति नहीं है, तो यह समझा जाएगा कि उसने अपनी सीट खाली कर दी है"।

अतः अब आईएमसी अधिनियम, 1956 की धारा 7 की उप-धारा 3 के उपबंध के अनुपालन में, डॉ. वेंकटेश काकोलू और डॉ. के. रमेश रेड्डी डॉ. एनटीआर स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के चिकित्सा संकाय के सदस्य नहीं हैं और तत्काल प्रभाव से यह माना जाएगा कि अब वे डॉ. एनटीआर स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के सदस्य नहीं हैं।

[सं. वी-11013/02/2014-एमईपी-1]

देवेश देवल, उप सचिव

पाद टिप्पणी: मूल अधिसूचना 9 जनवरी, 1960 के का.आ.सं. 138 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 2013 (2013 का 11) के तहत इसमें पहले संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 2014

S.O. 123 (E).—Whereas on 6th November, 2013, the Medical Council of India was re-constituted in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3A of the Indian Medical Council (Amendment) Ordinance, 2013;

Whereas in pursuance of the provision of sub-section (1)(b) of Section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the following doctors were elected as member of the Medical Council of India representing Dr. NTR University of Health Sciences, Andhra Pradesh vide notification dated 5.11.2013 in Gazette of India:

S.No.	Name of the University	Details of the Elected Member
1.	Dr. NTR University of Health Sciences, Andhra Pradesh	(i) Dr. Venkatesh Kakollu, Prof. of Surgery & I/c ADME Gandhi Medical College, Secunderabad (ii) Dr. K. Ramesh Reddy, Prof. & HOD of Paediatric Surgery, Nilofer Hospital, Osmania Medical College, Hyderabad

Whereas the Medical Council of India has informed that after the enactment of Andhra Pradesh Reorganization Act, 2014, whereby the State of Telengana has now by Dr. NTR University of Health Science Act, 1986 (Telengana Adopting Order) 2014, formed its own Health University – Kaloji Narayana Rao University of Health Sciences for the State of Telengana in order to grant affiliation to various medical & dental colleges situated in the newly constituted State. After the formation of the Health University for the State of Telengana, the Medical Colleges which were earlier affiliated to Dr. NTR University of Health Sciences, Andhra Pradesh and are now within the territory of the State of Telangana are affiliated to the Kaloji Narayana Rao University of Health Sciences.

And whereas the sub-section 3 of Section 7 of the IMC Act, 1956 states,—“an elected or nominated member shall be deemed to have vacated his seat if he is absent without excuse, sufficient in the opinion of the Council, from three consecutive ordinary meetings of the Council or, in the case of member elected under clause (b) of sub-section (1) of Section 3, if he ceases to be a member of the faculty of the University concerned, or in the case of a member elected under clause (c) or clause (d) of that sub-section, if he ceases to be a person on the State Medical Register concerned”.

Now, therefore, in pursuance of the provision of sub-section 3 of Section 7 of the IMC, 1956, Dr. Venkatesh Kakollu and Dr. K. Ramesh Reddy are not medical faculty of the Dr. NTR University of Health Sciences and shall be deemed to have ceased to be a member of the Medical Council of India representing Dr. NTR University of Health Sciences with immediate effect.

[No. V-11013/02/2014-MEP-I]

DEVESH DEVAL, Dy. Secy.

Foot Note : The principal notification was published in the Gazette of India vide number S.O. 138 dated the 9th January, 1960 and was last amended vide Indian Medical Council (Amendment) Second Ordinance, 2013 (11 of 2013).